

CIN: L74110DL1962PLC003634 4/11, 1st Floor, Asaf Ali Road, New Delhi - 110 002 (INDIA) Ph. No.: +91 - 9910032394

Email: admin@everesttools.com Website:- www.everesttools.com

Date: October 16, 2021

To, The Manager (Listing) BSE Limited Floor 25, P J Tower, Dalal Street, Mumbai - 400001

<u>Sub: Newspaper Advertisement – Regulation 47 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirement) Regulations, 2015</u>

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith copies of Corrigendum to Annual Report published in the newspapers, "FINANCIAL EXPRESS" (in English) and "JANSATTA" (in Hindi) on October 14, 2021.

Kindly take the same in your records and oblige.

Thanking you,

Yours Faithfully

For Hindustan Everest tools Limited

For Hindustan Everest Tools Limited

Ms. Avushi Jain Company Secretary

Company Secretary & Compliance officer

M. No: A66504

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given that Share Certificate No. 116617 for 40 Equity Shares of Rs.10/- (Rupees ten only) each bearing Distinctive No.(s) 25331362-401 of Eicher Motors Limited, having its registered office at 3rd floor, Select Citywalk, A-3 District City Centre, Saket New Delhi 110017 registered in the name of Visha Chaudhary have been lost. Vishal Chaudhery have applied to the company for issue duplicate certificate. Any person who has any claim in respect of the said shares certificate should lodge such claim with the company within 15 days of the publication of this notice.

> C-29, Community Centre, Pankha Road, Janakpuri, New Delhi-110058 Phone: 011-25611041, 25611042, 25611043, 25611044 E-mail: leagal@kangrabank.com, legal1@kangrabank.com Website : www.kangrabank.com

THE KANGRA CO-OPERATIVE BANK LTD.

APPENDIX IV

[See rule 8(1)] POSSESSION NOTICE

(For immovable property)

The undersigned being the Authorised officer of "The Kangra Co-operative Bank Ltd." Head office at, C-29, Community Centre, Pankha Road, Janak Puri, New Delhi - 110058 having its registered office at 1916, Chuna Mandi, Pahar Ganj, New Delhi-110055, under The Securitisation and Reconstruction of the Financial Assets & Enforcement of Security Interest Act, 2002, (54 of 2002) and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with rule [3] of The Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, the Bank had issued a demand notice on dated: 02-02-2021, calling upon the borrower & Mortgagor namely Sh. Manu Chopra S/o. Sh. S.S. Chopra R/o. 23-B, DDA LIG Flats Moita Khan, Swami Ram Tirath Nagar, Pahargani, New Delhi-110055, to repay the amount mentioned in

The above mentioned borrower & mortgagor having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower & mortgagor and the public in general that the Bank has taken possession of the property described here in below in exercise of powers conferred under sub-section (4) of section 13 of The Securitisation and Reconstruction of the Financial Assets & Enforcement of Security Interest Act, 2002, read with rule [8] of The Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, on this 12th day of October 2021.

The borrower & mortgagor in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the mortgaged property and any dealings with the property will be subject to the charge of "The Kangra Co-operative Bank Ltd.", for an amount of ₹ 24,13,352/ together with further interest, penal interest and other charges as are applicable to this Loan account from time to time, from the date of notice till the date of realization together with all the costs incurred by the Bank in realizing the said amount.

The borrower & mortgagor attention is also been invited towards provisions of Sub-Section (8) of Section 13 of The Securitisation and Reconstruction of the Financia Assets & Enforcement of Security Interest Act, 2002, in respect of time available, to redeem the below mentioned mortgaged property/Secured Asset.

DESCRIPTION OF THE PROPERTY

The property under All the part and parcel of the Residential property bearing

consideration is DDA FLAT NO. 23 B, 1" Floor, DDA LIG FLAT MOTIA KHAN. LIG. Flat on 1" Floor. NEW DELHI-110055. Falling Under the Registration of Sub-Registrar VII, Delhi. (HARISH SHARMA)

AUTHORISED OFFICER THE KANGRA CO-OPERATIVE BANK LTD. HEAD OFFICE AT, C-29, COMMUNITY CENTRE, PANKHA ROAD, JANAKPURI, NEW DELHI-58. DATED: 12.10.2021 Sastra Division, 3rd Floor, East Wing, पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank

Plot No. 4, Sec. 10, Dwarka New Delhi horecovery@pnb.co.in/hosastrawilful@pnb.co.in Date: 05.10.2021 SHOW CAUSE NOTICE

M/s Tara Jewels Ltd., Plot No.-29(P) & 30 (P) A, SEEPZ, Andheri East, Mumbai-400096.

- Sh. Rajeev Vasanth Sheth (Director), No:-3, 37/A, Villa Ramona, Nepeansea Road. Sh. Rajeev Lochan Jain (Director), 402, Aralias, DLF Golf Links, DLF City, Phase-5.
- 4. Sh. Rakesh Kalra (Director), TNA 023, Trinity Towers DLF Phase-V, Gurgaon
- Sh. Ravindran (Director), 1605/1606 6B Whispering Palms CHS Ltd. Lokhandwala Township Kandivili (E), Mumabi-400101,
- Reg.: Show Cause for Identification of default in the loan account M/s Tara Jewels Ltd with the Bank, as "Wilful

Please refer to notice dated 08.07.2021 issued by the bank vide which the event(s) of wilful default perceived in the captioned loan account has been pointed out and you

thereby called upon to rectify the default/s within 10 days of receipt of the said notice. However, you failed/neglected to take any action thereto. The facts of the matter were placed before the Committee for Identification of Wilful

Defaulters ("Identification Committee") constituted in consonance with the RBI guidelines. The Committee, in its meeting held on 23.09.2021, after going through facts of the matter & evidence on record, has concluded that events of default/s has occurred in the account which are wilful and substantial to classify you as Wilful Defaulter', inter

 Borrower had purchased immovable property by availing export packing credit post shipment credit, etc. Borrower had utilized the short-term funds for long term purpose ie working capital funds for acquisition of the immovable property (Flats in

Borrower has investment in subsidiary and step-down subsidiary. Further the major debtors in the books of the borrower is subsidiary and step down subsidiary and borrower is not initiating any steps to liquid his investments and repay the dues

On scrutiny of stock statements submitted by borrower to the lead bank for calculation of monthly drawing power for all the working lenders, when compared with stock register, it was indicated that the non-moving stock was ir value of WIP, leading to indicative excess drawing power claimed by borrower In case you feel aggrieved by the aforesaid conclusion of the identification Committee.

you may make a submission/representation, if you so desire, to the identification Committee for consideration and show cause as to why you should not be classified as "Wilful hereof and be sent either to Dy. General Manager, SASTRA Division, 3rd Floor, East Wing, Punjab National Bank, Head Office, Sector 10, Dwarka, New Delhi-110075 or

If we do not receive any submission/representation of yours, it would be deemed that you have nothing to say in your defence against the conclusion of the Identification show cause, the Identification Committee shall proceed to pass an order with regard to declaration of the Wilful Defaulter as per the RBI guidelines.

The undersigned is the member of the identification Committee constituted in consonance with the RBI directives and the Identification Committee has authorized the undersigned to send this show cause notice under his signature

> (Ashok Kumar Mishra) Member of Identification Committee

छत्तासगढ पर्यावरण सरक्षण मडल



पर्यावास भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर (छ.ग.) ४९२००२

// सर्वसंबंधितों को सचना //

भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 (यथा संशोधित) के तहत सर्व संबंधितों को सचित किया जाता है कि मेसर्स एम. एस. पी. स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड, ग्राम व पोस्ट-जामगांव, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) में क्षमता विस्तार के तहत् प्रस्तावित DRI Plant (Sponge Iron) from 3,75,000 TPA (Existing) to 9,53,000 TPA (Post Expansion), Rolling Mill from 4,80,000 TPA (Existing) to 10,20,000 TPA (Post Expansion), Steel Melting Shop from 3,84,000 TPA (Existing) to 11,71,000 TPA (Post Expansion). Power Plant from 72.5 MW (Existing) to 123.5 MW (Post Expansion), New Sinter Plant 7,20,000 TPA, New Blast Furnace of 4,50,000 TPA, New Oxygen Plant of 220 TPD of Intergrated Steel Plant [डी. आर. आई. (स्पंज ऑयरन) 3,75,000 टन/ वर्ष (संचालित) से 9,53,000 टन/वर्ष (क्षमता विस्तार के पश्चात),रोलिंग मिल 4.80.000 टन/ वर्ष (संचालित) से 10,20,000 टन/वर्ष (क्षमता विस्तार के पश्चात) स्टील मेल्टिंग शॉप 3,84,000 टन/ वर्ष से (संचालित) 11,71,000 टन/ वर्ष (क्षमत विस्तार के पश्चात), पॉवर प्लांट 72.5 मेगावॉट (संचालित) से 123.5 मेगावॉट (क्षमता विस्तार के पश्चात), नवीन सिटर प्लांट 7,20,000 टन/वर्ष, नवीन ब्लास्ट फर्नेस 4,50,000 टन/वर्ष, नवीन आक्सीजन प्लांट 220 टन/दिन इंटिग्रेटेड स्टील प्लांट] की स्थापना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई बाबतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल में आवेदन किया गया है। उक्त क्षमता विस्तार परियोजना के संबंध में आपत्ति/सुझाव/ विचार/टीका-टिप्पणी, इस सुचना के जारी होने के दिनांक से 30 दिवस के अंदर क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायगढ़ के कार्यालय मे मौखीक अथवा लिखित रूप से कार्यालयीन समय में प्रस्तुत की जा सकती है। इस परियोजना के लिए लोक सुनवाई दिनांक 17.11.2021, दिन-बुधवार, समय-प्रातः 11.00 बजे, स्थान-सामदायिक भवन, ग्राम पंचायत जॉमगांव (बस्ती) के समीप का मैदान, तहसील व जिला -रायगढ़ (छ.ग.) नियत कि गई है ।यह भी सूचित हो कि लोक सुनवाई के दौरान भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के आफिस मेमोरेण्डम F.No. 22-25/2020-IA.III दिनोंक 14.09.2020 तथा कोरोना वाईरस के नियंत्रण एवं रोकथाम हेत् शासन द्वारा जारी समस्त दिशा-निर्देशो का अक्षरशः पालन कराया जाना अनिर्वाय होगा ।

ई.आई.ए. अधिसूचना दिनांक 14 सितंबर 2006 (यथा संशोधित) के अनुसार संबंधित व्यक्तियों के अवलोकन / पठन हेतु ड्राफ्ट ई.आई.ए रिपोर्ट अंग्रजी भाषा में एवं इसकी संक्षिप्त सार रिपोर्ट हिन्दी एवं अंग्रेजी तथा सी.डी. (सॉफ्ट कॉपी) कार्यालय कलेक्टर रायगढ, कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, रायगढ, कार्यालय महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र रायगढ़, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ्, जिला- रायगढ्, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ् पर्यावरण संरक्षण मंडल, टी.व्ही. टॉवर रोड रायगढ, कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, रायगढ जिला- रायगढ़, सरपच / सचिव कार्यालय ग्राम पंचायत- जॉमगांव, मनुआपाली कोलाईबहाल, बेहरापाली, कुकुरदा, कोटमार, छहीपाली, कोईलंगा, सपनई, तहसील-रायगढ़, जिला-रायगढ़, डायरेक्टर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, नई दिल्ली, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय अरण्य भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर एवं मुख्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, पर्यावास भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19. नवारायपुर (छ.ग.) में रखी हुई है।

OSBI STATE BANK OF INDIA

E- TENDER NOTICE FOR HOUSEKEEPING & SERVICE MAINTENANCE State Bank of India. Administrative Office-Warangal invites E-tenders for Housekeeping & Service Maintenance Contract for the following offices/ Branches. NIT No. Offices/Branches

AO/WGL/2021-22/01 AO, RASMECCC Warangal, RASMECCC Karimnagar, RBO Karimnagar, RBO Kothagudam, RBO Warangal Rural, RBO Warangal Urban and 196 Branches. The interested parties who did similar works anywhere in India can download the tender document from the Bank's website https://sbi.co.in/web/sbi-in-the-news/procurement-news. The

completed tenders should be uploaded online through e-tendering process on or before 9/11/2021. Place: Warangal Chief Manager (GB) Date: 13/10/2021 Administrative office-Warangal

CAMSO INDIA LLP

Registered Off.: 3rd Floor, Orchid Business Park, Sohna Road, Sector 48, Gurgaon - 122001. Haryana. LLPIN: AAK-3664

Before the Central Government Registrar of Companies, Delhi & Haryana

In the matter of sub-section (3) of Section 13 of Limited Liability Partnership Act, 2008 and rule 17 of the Limited Liability Partnership Rules, 2009. In the matter of the Limited Liability Partnership Act, 2008, Section 13 (3)

In the matter of Camso India LLP having its registered office at 3rd Floor, Orchic Business Park, Sohna Road, Sector 48, Gurgaon HR 122001 IN - Petitioner Notice is hereby given to the General Public that the LLP proposes to make a petition to Registrar of Companies, Delhi & Haryana under section 13 (3) of the Limited Liability Partnership Act, 2008 seeking permission to change its Registered office from the state of "Haryana" to the state of "Tamil Nadu". Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the registered office of the LLP may deliver or cause to be delivered or send by Registered post of his / her objections supported by an affidavit stating the nature of his / her interest and grounds of opposition supported by an affidavi to the Registrar of Companies, Delhi & Haryana, within 21 (twenty one) days from the date of publication of this notice with a copy to the petitioner LLP at its registered office at the address mentioned above.

> For and on behalf of CAMSO INDIA LLP sd/- Rajesh Bagrecha Designated Partner - DPIN: 07858285

Date: 14-10-2021 Place: Gurgaon

KARVYIII FINANCE

Corporate Office: Karvy Financial Services Limited 202-205, Enterprise Center 2nd floor, Near Domestic Airport, Opp Hotel Airlink, Off Western Express Highway, Vile Parle (East), Mumbai -400 056 Email id - niraj.damani@karvy.com, Phone - 9849998873

NOTICE U/S 13(2) OF SARFAESI ACT, 2002 BY RPAD / SPEED POST A.D.

 Rajesh Kishan Chauhan (Borrower): -C-4/43. House No 43. 1st Floor, Block C. Pkt - 4. Sector No 11, Opp Garg Trade Center, Rohini, Delhi - 110085

1b. Rajesh Kishan Chauhan:-Prop Of M/s Chauhan Constructions Co. India Ground Floor, Plot No 35 Block No B-8, Sector No 11, Near Japanese Park, Rohini, Delhi - 110085 1c. Rajesh Kishan Chauhan :-Plot No 70, Pkt - C-5, Sector No 11, Rohini, Delhi - 110085

 Alka Chauhan(Co. Borrower):-C-4/43. House No 43. 1st Floor. Block C. Pkt – 4. Sector No 11, Opp Garg Trade Center, Rohini, Delhi - 110085 Dear Sir/ Madam,

SUBJECT: NOTICE UNDER SECTION 13(2) OF THE SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF THE FINANCIAL ASSETS AND ENCFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT, 2002 (hereinafter referred to as "the said Act") We, Karvy Financial Services Ltd (KFSL), a Company duly incorporated under the

provisions of Companies Act, 1956 having its corporate office at Karvy Financial Services Ltd. 705/706, 7th Floor, Hallmark Business Plaza, Sant Dyaneshwar Marg. Opp to Guru Nanak Hospital, Bandra (East), Mumbai - 400051, have to address you:-

 That you addressee No. 1 to 2 being Borrower and Co-Borrower have availed a secured business Loan of Rs.1,54,00,000/- (Rupees One Crore Fifty Four Lakhs Only) in respect of Loan Account No. 502764 against property more fully described hereunder. The said loan was sanctioned on 30thApril 2014 and accordingly you addressee no. 1 to 2 entered into Loan Agreement No. 502764 dated 30thApril 2014. The said loan was granted for a period of 180 months against the security / mortgage of aforesaid property as security towards repayment of the said Loan due and payable under the said Loan agreement, original Title Deeds of the said property were deposited with us with an intention to create an equitable mortgage in our favour. Pursuant thereto, Loan for a sum of Rs.1,54,00,000/- (Rupees One Crore Fifty Four Lakhs Only) was disbursed to you.

That in consideration thereof, you had agreed and undertook to repay the said Loans with interest as per the repayment scheduled attached to the said Loan Agreement. In case of delay/default in payment of the loan installments and other Amounts due and payable under the said Loan Agreement, you addressees had also agreed to

We regret to state that you addressees as borrowers\Co-borrowers have committed defaults in payment of Loan installments and other amounts due and payment under the said Loan Agreement, and despite repeated requests reminders and follow up, have failed and / or neglected to clear the said dues. Consequent upon the defaults committed by you, Your Loan account no. 502764 has been classified as Non-Performing Assets (NPA) in the month of 6th February 2020 in accordance with the directives relating to asset classification issued by the Reserve Bank of India.

 As on date 21/09/2021 an amount of Rs. 5966472/- (Rupees Fifty nine lakhs sixty six thousand four hundred and seventy two Only) in respect of Loan Account No. 502764 are outstanding dues in your loan account therefore, we hereby give you notice under Section 13(2) of the SARFAESI Act, 2002 and call upon you to pay in full the aforesaid amount and discharge your liabilities to Karvy Financial Services Ltd. within 60 days from the date of this notice.

Loan Account No 502764	Total
Principle 0/s.	4730839/-
Total Interest Due As On 21st Sep. 2021	740048/-
Charges Dues	495585/-
Total Amount due and Outstanding As 21st Sep. 2021	5966472/-

We further give you notice that if you fail to make the said amount as mentioned above with interest till the date of realization of payment, we shall be free to exercise all or any of the rights and powers conferred on us under sub-section (4) of Section 13 of the Act, which inter-alia includes power to take possession of the secured

Your kind attention is invited to provisions of Sub-Section (8) of Section 13 of the SARFAESI Act where under you can tender the entire amount of outstanding dues together with all costs, charges and expenses incurred by the Karvy Financial Services Ltd only before the date of publication of the notice for sale of the secured assets by public auction by inviting quotations tender from public or by private treaty. Please also note that if the entire amount of outstanding dues together with the costs, charges and expenses incurred by the Karvy Financial Services Ltd. is not tendered before publication of notice for sale of the secured assets by public auction, by inviting quotations, tender from public or by private treaty you may not be entitled to redeem the secured assets.

That take note that after receipt of this notice, in terms of Sub-Section 13 of Section 13 of the Act, 2002 you are prohibited and restrained from transferring the secured asset by way of sale, lease or otherwise without prior written consent of Karvy Financial Services Ltd. in writing . We may add that any non-compliance of the provisions of Section 13(13) of the Act, 2002 is an offence punishable under section 29 of the SARFAESI Act, 2002.

Please note that this demand notice is issued without prejudice to any other rights or remedies which we may have including without limitation the right to make further demands in respect of sums owing to us by you. Please also take note that in case the amount realized through sale of the property is

not sufficient to satisfy the claim made in this notice, Karvy Financial Services Ltd is entitled to recover the balance amount from you personally as per law.

You may take note that all the expenditure incurred in taking possession and sale of the secured asset shall be borne by you only.

11. This is without prejudice to any other rights available to us under the said Act and / or any other law in force from time to time. 12. You are hereby notified to correspond with us only at the given addresses:-Karvy

Financial Services Ltd. 705/706, 7th Floor, Hallmark Business Plaza, Sant Dyaneshwar Marg, Opp to Guru Nanak Hospital, Bandra (East), Mumbai - 400051. Yours faithfully,

> For Karvy Financial Services Ltd. Authorised Officer

Schedule:-Description Of The Property Property address bearing Plot No 35, Basement & Ground, Pocket - 8, Block B, Sector- 11,

Rohini, Delhi. Total Built Up area measuring upto 930 Square Feets and bounded by: North: Plot No. 34, South: Plot No. 36, East: Service Lane, West: 18 Mtr Road

Yours faithfully. For Karvy Financial Services Ltd. **Authorised Officer** **Hindustan Everest Tools Limited** CIN: L74110DL1962PLC003634

Registered Office: First Floor, 4/10, Asaf Ali Road, Delhi-110002 E-mail Id: admin@everesttools.com; Website: www.everesttools.com **CORRIGENDUM TO THE ANNUAL REPORT 2020-21**

This is in reference to the disclosure dated 01st October, 2021 on Exchange, the draft Annual Report has been inadvertently enclosed by us, we hereby wish to inform you to consider the revised and corrected version of Annual Report for the Financial Year 2020-21 which already has been disclosed on website of the Company at www.everesttools.com and on Exchange at www.bseindia.com.

This corrigendum shall be read in continuation of and in conjunction with the Notice dated October 06, 2021 convening the Annual General Meeting of the members of the Company on Wednesday, the 27th day of October, 2021. All other contents of Notice of AGM remain unchanged.

This corrigendum is also being place on the Company's Website.

For Hindustan Everest Tools Ltd.

Devansh Gupta Managing Director

DEUTSCHE BANK AG

Appendix IV [Rule 8 (1)] POSSESSION NOTICE Whereas, the undersigned being the authorized officer of Deutsche Bank AG, India

("Bank") under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcemen of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under Section 13(12) read with rule 9 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a demand notice dated 16.06.2021 calling upon the borrower Mr. Shobhit Raimalani ("Borrower"), Mrs. Sarita Rajmalani, Mr. Sham Verhomal Rajmalani, Mr. Mohit Rajmalani & Mrs. Kiran Rajmalani ("Co-Borrowers), to repay the outstanding amount as mentioned in the notice being Rs. 86,47,243.33 (Rupees Eighty Six Lakhs Forty Seven Thousand Two Hundred Forty Three And Paisa Thirty Three Only), within 60 days from the date of receipt of the said notice.

The Borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrower and the public in general that the undersigned has taken symbolic possession of the property described herein below in exercise of the powers conferred on him/her under Section 13(4) of the said act read with rule 9 of the said act on this 12th Day of October of the year 2021. The Borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the Bank for an amount of Rs. 86,47,243.33 (Rupees Eighty Six Lakhs Forty Seven Thousand Two Hundred Forty Three and Paisa Thirty Three Only), and interest thereon. **Desription of the Immovable Property**

All that the self-contained residential property being:- Plot No 504 Block C1 Palam Viha Village Chauma & Carterpuri Tehsil & District Gurgaon - 122017 (Haryana) Admeasuring 300 Sq. Mtrs. which is butted and bounded as follows: North By: Land, South By: Road, East By: Road, West By: C1-503. Vishal Charan

Registered office: 27 BKC, C-27, G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai, Maharashtra, Pin Code

Date: 14/10/2021 Place: New Delhi

kotak

Place: New Delhi

Date: 13/10/2021

Online E – Auction Sale Of Asset **KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED**

Authorized Officer

Deutsche Bank A.G.

400 051, Branch Office: Plot No.-7, 7th Floor, Sector -125, Noida, Uttar Pradesh -201313 Sale Notice For Sale of Immovable Properties

E-Auction sale notice for sale of Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction o Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 under rule 8(5) read with rule 8 (6) of The Security Interest (Enforcement) rule, 2002.

Notice is hereby given to the public in general and in particular to the borrower (s) and guarantor (s) that the below described immovable property mortgaged/charged to the secured creditor, the possession of which has been taken by the authorised officer of Kotak Mahindra Bank Ltd. on 17.06.2021, pursuant to the assignment of debt in its favour by BHFL, will be sold on "As is where is", "As is what is", and "Whatever there is" on 17.11.2021 between 12:00 pm to 01:00 pm with unlimited extension of 5 minutes, for recovery of Rs. 34,09,503/- (Rupees Thirty Four Lakhs Nine Thousand Five Hundred Three Only) as of 12.10.2021 along with future applicable interest til realization, under the Loan Account No.401HFP63928077, 401TSH63699869 401HSL63699826 due to the Kotak Mahindra Bank Ltd., secured creditor from Mr. Kunal Sharma & Mrs. Pooja Sharma. The Reserve price will be Rs. 24,00,000/- (Rupees Twenty Four Lakh Only) and The Earnest Money Deposit will be Rs. 2,40,000/- (Rupees Two Lakh Forty Thousand Only) & Last Date of submission of Emd with KYC is 16.11.21 up to 7:00 p.m. (IST.)

Property Description: All that piece and parcel of Flat Bearing No. C010405, on 4th Floor. Super Area Measuring 96.01 Sq Mtrs., Type 2BH1< in building C-01, In Ebony Greens', "Crescent Parc" situated in village Shahpur Bamheta, NhH24. Ghaziabad UP- 201002, North - Open Area, East-Open Area, West - Flat No. 404 & South - Flat No. 406.1

The borrower's attention is invited to the provisions of sub section 8 of section 13, of the act, i respect of the time available, to redeem the secured asset. Public in General and borrowers i particular please take notice that if in case auction scheduled herein fails for any reason whatsoever then secured creditor may enforce security interest by way of sale through private treaty. In case of any clarification/requirement regarding assets under sale, bidder may Contact **Mr**. Rajender Dahiya (+91 8448264515), Mr. Somesh Sundriyal(+91 9910563402), Mr. Akshit Solanki (+91 7302111608) & Mr. Prashant Gautam (+91 9643615436). For detailed terms and conditions of the sale, please refer to the link https://www.kotak.com/en/bank-auctions.html provided in Kotak Mahindra Bank website i.e. www.kotak.com and/or o https://bankauctions.in/

Place: Ghaziabad, Date: 11.10.2021

Authorized Officer: Kotak Mahindra Bank Limited

DEUTSCHE BANK AG Appendix IV [Rule 8 (1)] POSSESSION NOTICE

Whereas, the undersigned being the authorized officer of Deutsche Bank AG, India ("Bank' under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under Section 13(12) read with rule 9 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a demand notice dated 16.06.2021 calling upon the borrower M/s. Horizon Trading Co ("Borrower"), Mr. Gaurav Rastogi, Mr. Tarun Rastogi, Mrs. Leena Rastogi, Mrs Alpana Rastogi & M/s. Horizon Biosciences Private Limited ("Co-Borrowers), to repay the outstanding amount as mentioned in the notice being Rs. 3,87,56,397.88 (Rupees Three Crore Eighty Seven Lakhs Fifty Six Thousand Three Hundred Ninety Seven And Paisa Eighty Eight Only), within 60 days from the date of receipt of the said notice.

The Borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrower and the public in general that the undersigned has taken symbolic possession of the property described herein below in exercise of the powers conferred on him/her under Section 13(4) of the said act read with rule 9 of the said act on this 12th Day of October of the year 2021.

The Borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the Bank for ar amount of Rs. 3,87,56,397.88 (Rupees Three Crore Eighty Seven Lakhs Fifty Six Thousand Three Hundred Ninety Seven And Paisa Eighty Eight Only), and interest thereon.

Desription of the Immovable Property

All that the self-contained residential property being: - Plot No 16, Bodhi Marg, in the colon known as DLF Qutab Enclave, Phase-1, situated at village Chakkarpur, Gurgaon-122002 (Haryana) Admeasuring 264 Sq. Mtrs. which is butted and bounded as follows: North By No. 15, Bodhi Marg, South By: No. 17, Bodhi Marg, East By: Road, West By: Plot No. F2/5

Place: New Delhi

Date: 14/10/2021

Authorized Officer, Deutsche Bank A.G.



Online E – Auction Sale Of Asset KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED

Registered office: 27 BKC, C-27, G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai, Maharashtra, Pin Code-400 051, Branch Office: Plot No.-7, 7th Floor, Sector -125, Noida Uttar Pradesh -201313

Sale Notice For Sale of Immovable Properties

E-Auction sale notice for sale of immovable assets under the Securitisation and Reconstruction of

Notice is hereby given to the public in general and in particular to the borrower (s) and guarantor (s)

Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to rule 8 (5) to be read with proviso to rule 9 (1) of the Security Interest (Enforcement) rule, 2002.

that the below described immovable property mortgaged/charged to the secured creditor, the physical possession of which has been taken by the authorised officer of Kotak Mahindra Bank Ltd. on 18.02.2020, pursuant to the assignment of debt in its favour by ESSEL, will be sold on "As is where is", "As is what is", and "Whatever there is" on 2.11.2021 between 12:00 pm to 01:00 pm with unlimited extension of 5 minutes, for recovery of Rs.31.91.424/- (Rupees thirty one lakhs ninety one thousand four hundred twenty four only)/- as on 12.10.2021 along with future applicable interest till realization, under the **Loan Account No. LNDEL00215-160000173, due** to the Kotak Mahindra Bank Ltd., secured creditor from 1. New Modern Meat Shop, 2. Mrs. Prayeen Aslam All At: C-231 DDA, flates, Kalka Ji, South Delhi, New Delhi – 110019 & 84, Ground Floor, Chhata Lal lian, Dariya Ganj , Delhi -110002 . The reserve price will be Rs. 28,00,000/- (Rupees Twenty Lakh Only), The Earnest Money Deposit will be Rs. 2,80,000/- (Rupees Two Lakh Eighty Thousand Only) & Last Date of Submission of EMD with KYC is 1.11.2021 up to 7:00 p.m. (IST.) Property Description: All that piece and parcel of Flat No. C-231, Ground Floor, Delhi

Development Authority Flats, Admeasuring 199.134 Sq.ft, Kalkaji Delhi-110019 The borrower's attention is invited to the provisions of sub section 8 of section 13, of the act, in respect of the time available, to redeem the secured asset. Public in General and borrowers in particular please take notice that if in case auction scheduled herein fails for any reason whatsoever then secured creditor may enforce security interest by way of sale through private treaty, in case of any clarification/requirement regarding assets under sale, bidder may contact Mr. Rajender Dahiya (+91 8448264515), Mr. Somesh Sundriyal (+91 9910563402), Mr. Akshit Solanki (+91 7302111608) & Mr. Prashant Gautam (+91 9643615436). For detailed terms and conditions of the sale, please refer to the link https://www.kotak.com/en/bank-auctions.html provided in Kotak Mahindra Bank website i.e. **www.kotak.com** and/or on https://bankauctions.in/

Place: Delhi, Date: 11.10.2021

Authorized Officer: Kotak Mahindra Bank Limited

POSSESSION NOTICE

(For Immovable Property)

पंजाब नैशनल बैंक 🙋 punjab national bank

Whereas, been the Authorized Officer/s of the Punjab National Bank under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets & Enforcement of Security Interest Act, 2002, and in exercise of powers conferred under Section 13 read with the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, issued demand notice/s on the dates mentioned against each account calling upon the respective borrower/s to repay the amount as mentioned against each account within 60 days from the date of notice(s)/ date of receipt of the said notice(s). The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken Symbolic Possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under sub-section (4) of Section 13 of Act read with Rule 8 of the Security Interest Enforcement) Rules, 2002, on the The borrower/s in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property/ies and any dealing with the property/ies will be subject to the charge of Punjab National Bank for the amounts and interest thereon. The borrower's /guarantor's /mortgagor's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act in respect of time available to redeem the secured assets (a) Demand notice Date

(a) Name of Branch (b) Name of Account (c) Name of Borrowers/Guarantor/Morgorer & Address 1. (a) Branch: Mawana (E-OBC)

(b) Sh. Rajan Verma S/o Sh. Arvind Verma

(c) Borrower: 1.Sh. Rajan Verma s/o Sh. Arvind verma. Add 1: CL 110 Pallaypuram, Phase1, Roorkee Road Meerut, Tehsil & Distt, Meerut-250001, Add 2: House No. Dh-153 Pallav Puram Phase-1, Roorkee Road Meerut. Tehsil & Distt. Meerut- 250001. Co- Borrower: Consisting of the boundries East: 8.70 meter/ther Smt Durgesh Rani w/o Raian Verma Add 1: CL- 110 Pallavpuram. Phase1. Roorkee Road Meerut. Tehsil & Distt. Meerut- 250001.

Description of property Mortgage Description of property Mortage Equitable Mortage (a) 21.06.2021 of one MIG house no.Dh-153 admeasuring 130.50 sqmtr situated at Pallav Puram, Phase-1, MDA (b) 12.10.2021 residential colony. Meerut City standing in the name of Sh. Rajan Verma s/o Sh. Arvind Verma -eafter MIG property no. Dh-152, West: 8.70 Meter

Centre for Aromatic plants (CAP) Industrial Estate, Selagui – 248011, **Dehradun (Uttarakhand)** Telefax - 0135-2698305. E-mail: cap.dun@gmail.com

Website www.capuk.in

e-Tender Notice No 09/CAP/2021-22 e-tenders are invited from the Authorized Indian Agents of

Original Equipment Manufacturers (OEM) for the supply. installation of Growing Media, Trays & Root trainer, Growing bag, Trolley, Transportation trolley, Conveyor belt, HTP Power sprayer, Weed mat, Drip Irrigation system etc and upgradation work of existing Net house in CAP premises Selagui, Dehradun. Detailed terms and conditions of tender document can be downloaded from e-tendering website of Uttarakhand Government www.uktenders.gov.in from 16.10.2021 to 30.10.2021. The cost of tender is Rs. 1180/- including GST. The tender can only be applied through e-tendering procedure on the website www.uktenders.gov.in. The last date of

Director

ART HOUSING FINANCE (INDIA) LIMITED (Formerly known as ART Affordable Housing Finance (India) Limited)
Regd. Office: 107, First Floor, Best Sky Tower, Ketaji Subhash Place, Pitampura, New Delhi-110034
Branch Office: 49, Udyog Vihar Phase 4, Gurugram, Haryana 122015 APPENDIX-IV (See rule 8(1))

POSSESSION NOTICE (For Immovable Property)

The undersigned being the Authorized Officer of ART HOUSING FINANCE (INDIA) LIMITED [CIN

applying and submission is 30th October, 2021.

NO. U65999DL2013PLC255432] under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002, issued a Demand Notice dated 04.06.2021 for Loan Account No. LNYNR03618-190005686 calling upon the borrower(s DEEPAK TYAGI & DEEPA TYAGI to repay the amount mentioned in the notice being Rs. 13,26,522/-Rupees Thirteen LakhTwenty-Six Thousand Five Hundred and Twenty-Two Only) as or 6.05.2021 and interest thereon within 60 days from the date of receipt of the said notice. The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower(s) and the

exercise of powers conferred on him under Sub-Section (4) of Section 13 of the Act read with Rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 on 09.10.2021 The borrower in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of theART Housing Finance (India) imited for an amount of Rs. 13,26,522/- (Rupees Thirteen Lakh Twenty-Six Thousand Five

public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in

Hundred and Twenty-Two Only) as on 16.05.2021 and interest thereon. The borrower's attention is invited to provisions of Sub-Section (8) of Section 13 of the Act in respect of time available, to redeem the Secured Asset.

DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY PROPERTY BEING COMMERCIAL ESTABLISHMENT, MEASURING 07.50 MARLAS I.E.

223 SQ. YARDS, COMPRISING IN KHEWAT NO. 38, KHATONI NO. 41, KHASRA NO 21/1 (2-7), 10/1 (2-16) BEING 15/206 SHARE OUT OF 05 KANAL 03 MARLAS, SITUATED AT MOUJA JORIAN, H.B. NO. 469, YAMURIA NAGAR, TEHSIL-JAGADHRI, DISTRICT YAMUNA NAGAR, HARYANA WHICH IS BOUNDED AS UNDER : 501- PROPERTY OF MAMTA DEVI WEST : 50'-1' - PASSAGE

AUTHORISED OFFICER DATE : 09.10.2021 ART HOUSING FINANCE (INDIA) LIMITED PLACE: YAMUNA NAGAR, HARYANA

SOUTH: 40':1" - PASSAGE

FEDERAL BANK The Federal Towers, Upper Ground Floor 2/2, West Patel Nagar, New Delhi-110008 YOUR PERFECT BANKING PARTNER Ph No.011-40733980, 40733978

NORTH: 40':1" - PROPERTY OF RADHIR SINGH

LCRD Division / New Delhi

POSSESSION NOTICE (For Immovable Property) Whereas The undersigned being the Authorised Officer of the Federal Bank Ltd. under

the Securitisation& Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security

Interest Act, 2002 (hereinafter referred to as Act) and in exercise of powers conferred under section 13(12) of the said Act read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002(hereinafter referred to as Rules) issued a demand notice dated 16.06.2021 calling upon the borrower (1) Sh. Rakesh Kumar, S/o. Sh. Shiv Ram Singh carrying on business in the name and style of M/s. Yash Enterprises Plot No 169, Jivan Nagar Gaunchi, Ballabhgarh, Faridabad, Haryana-121004. (2) Mrs. Bhagwati aged 62 years W/o. Mr. Shiv Ram R/o H. No 307, Sanjay Colony. Faridabad, Haryana-121004. (3) Mrs. Saroj aged 36 Yrs W/o. Mr. Rakesh Kumar, R/o H. No 307, Sanjay Colony, Faridabad, Haryana-121004, to repay the amount mentioned in the notice being a sum of ₹20,92,869/- (Rupees Twenty Lakh Ninety Two Thousand Eight Hundred Sixty Nine only) plus costs and other charges is due. in the Cash Credit account 13815500003419 on 31/05/2021 and a sum of ₹8,38,870/34 (Rupees Eight Lakh Thirty Eight Thousand Eight Hundred Seventy and Paisa Thirty Four Only) plus costs and other charges is due in the Term Loan account 13816900001847 as on 20.05.2021 i.e. a total of ₹29,31,739.34 (Rupees Twenty Nine Lakhs Thirty One Thousand Seven Hundred Thirty Nine and Paisa Thirty Four only) is due with Faridabad branch of the Bank from you jointly and severally as on 20.05.2021 within 60 days from the date of receipt of the said notice. The borrower having failed to repay the amount, notice is nereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on im/her under section 13(4) of the said Act read with rule 8 of the said Rules on this the

11"day of October 2021. The borrower/s' attention is invited to the provisions of section 13 (8) of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets (security properties). The borrower in particular and public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the Federal Bank Ltd. for an amount ₹31,38,034/- (Rupees Thirty One Lakh Thirty Eight Thousand and Thirty Four Only) both accounts is due from you jointly and

severally as on 11.10.2021 plus other charges, costs and interest thereon. DESCRIPTION OF MORTGAGED IMMOVABLE PROPERTY

All that piece and parcel of property admeasuring 230 sq.yd comprised in Rect No.42, Kila No.18/2, 23, Rect. No. 51, Kila 3,8,13 & 18 in the revenue estate of Mauza Gaunchi situated at Hero Agency Wali Gali, 22 ft Road, Jeewan Nagar Part -II, Mauza Gaunchi, Tehsil Ballabgarh District, Faridabad together with all buildings existing or to be constructed bounded on the North by Plot No.68, South by Plot No.170, East by Rasta and West by Road.

Date: 11.10.2021 Place: Faridabad

For The Federal Bank Ltd., Deputy Vice President (Authorised Officer under SARFAESI Act)

having its registered office at 1916, Chuna Mandi, Pahar Ganj, New Delhi-110055, under The Securitisation and Reconstruction of the Financial Assets & Enforcement of Security Interest Act, 2002, (54 of 2002) and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with rule [3] of The Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, the Bank had issued a demand notice on dated: 12-07-2021, calling upon the borrower namely Sh. Ram S/o. Sh. Babu Ram R/o. 4214, Tel Mandi, Pahargani, New Delhi-110055 and C/o. Hotel D.R.S. Continental, 3668-3671, Dariba Pan, Paharganj, New Delhii-110055, and calling upon the Mortgagor & Surety Smt. Anita Gola W/o. Sh. Shyam Gola, R/o. 4214, Tel Mandi, Paharganj, New Delhi-110055, and calling upon the Mortgagor & Surety Smt. Suman Gola R/o. 4214, Tel Mandi, Paharganj, New Delhi-110055, to repay the amount mentioned in the notice being ₹33,18,302/- (Rupees Thirty Three Lakhs Eighteen Thousand Three Hundred Two Only), together with further interest, penal interest and other charges as are applicable to this Loan account from time to time, from the date of the notice till the date of payment, with in 60 days from the date of receipt of the notice.

The above mentioned borrower & mortgagor having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower & mortgagor and the public in general that the Bank has taken possession of the property described here in below in exercise of powers conferred under sub-section (4) of section 13 of The Securitisation and Reconstruction of the Financial Assets & Enforcement of Security Interest Act, 2002, read with rule [8] of The Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, on this 12th day of October' 2021. The borrower & mortgagor in particular and the public in general is hereby cautioned not to

deal with the mortgaged property and any dealings with the property will be subject to the charge of "The Kangra Co-operative Bank Ltd.", for an amount of ₹33,18,302/together with further interest, penal interest and other charges as are applicable to this Loan account from time to time, from the date of notice till the date of realization together with all the costs incurred by the Bank in realizing the said amount. The borrower & mortgagor attention is also been invited towards provisions of

Sub-Section (8) of Section 13 of The Securitisation and Reconstruction of the Financial Assets & Enforcement of Security Interest Act, 2002, in respect of time available, to redeem the below mentioned mortgaged property/Secured Asset. **DESCRIPTION OF THE PROPERTY**

The property under All the part and parcel of the built up property bearing

54.34 Sq. Mtrs.

considerationis Built no.XV/4214 land measuring about 54.34 sq. meters, up Ground Floor, First | constructed on ground floor, firts floor, secondfloor, Third Floor, Second Floor, floor with terrace rights, alongwith all its fittings fixtures Third Floor, Measuring and installation etc. Therein situated at Tel Mandi, Pahargani, New Delhi. Falling Under the Registration of Sub-Registrar III, Delhi.

BOUNDED AS UNDER: EAST: Property of Ramji Lal,

DELHI.

WEST : Gali Mand Doorway of the House Being Sold, NORTH: Property of Chandrawati,

SOUTH: Gali and Property of Biriwala

(HARISH SHARMA) **AUTHORISED OFFICER**

THE KANGRA CO-OPERATIVE BANK LTD. HEAD OFFICE AT, C-29, COMMUNITY CENTRE, PANKHA ROAD, JANAKPURI, NEW DELHI-58. DATED: 12.10.2021

For All Advertisement Booking Call: 0120-6651214

New Delhi

financialem.epar.in

the notice being ₹ 24,13,352/- (Rupees Twenty Four Lakhs Thirteen Thousand Three Hundred Fifty Two Only) together with further interest, penal interest and other charges as are applicable to this Loan account from time to time, from the date of the notice till the date of payment, with in 60 days from the date of receipt of the notice.

Gurgaon, Haryana-122009. Dear Sir(s)/Madam(s),

/thereafter rasta 9 meter wide, North:-15 meter/ Add 2: House No. Dh-153 Pallav Puram Phase- 1, Roorkee Road hereafter 9 meter wide, North-15 meter/thereafter Meerut. Tehsil & Distt. Meerut-250001. Gurantor: Sh. Yogesh Verma MIG property no DH-131. South-15 meter/therea S/o Arvind Verma Add: House No. 205 Pallav Puram Phase-1, -fter rasta 9 meter wide. सदस्य सचिव छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, Roorkee Road Meerut. Tehsil & Distt. Meerut- 250001 नवा रायपुर, अटल नगर, जिला- रायपुर Date: 12.10.2021 Place: Meerut Authorised Officer, Punjab National Bank

(b) Symbolic

Possession date

Outstanding as on

date of Demand notice

Rs. 27,59,548.00

+ intt. due w.e.f.

01.06.2019 +

Other expenses

THE KANGRA CO-OPERATIVE BANK LTD. C-29, Community Centre, Pankha Road, Janakpuri, New Delhi-110058 Phone: 011-25611041, 25611042, 25611043, 25611044 E-mail: leagal@kangrabank.com, legal1@kangrabank.com Website : www.kangrabank.com APPENDIX IV [See rule 8(1)] POSSESSION NOTICE (For immovable property) The undersigned being the Authorised officer of "The Kangra Co-operative Bank Ltd." Head office at, C-29, Community Centre, Pankha Road, Janak Puri, New Delhi - 110058

रेलटेल (भारत सरकार का एक उपक्रम) सीआईएन स. L64202DL2000GOI107905

देनाक: 13-10-2021 रेलटेल / उत्तरी क्षेत्र द्वारा निम्नलिखित खंड में 3 वर्ष की अवधि के लिए ओएफसी रखरखाव टीम की नियक्ति के लिए योग्य बोलीदाताओं से ई-निविदाएं आमंत्रित की हैं: हिसार-सिरसा-भटिन्डा लिए रेलटेल / निविदा / ओटी / उ.क्षे. ऑएंडएम / 2021-22 / 11 निविदा सूचना और निविदा दस्तावेज

www.railtelindia.com पर उपलब्ध हैं परिशिष्ट / शुद्धिपत्र रेलटेल की वेबसाइट में अपलोड किया जायेगा। रेलटेल

(भारत रारकार का एक उपक्रम)

सीआईएन सं L64202DL2000GOI107905 रेलटेल / ई- निविदा / ओटी / डब्ल्यू आर / वाई-काई / 2021-22/गांधीधाम एवं कराचिया यार्डे दिनांक 04.10.2021 रेलटेल / पश्चिमी क्षेत्र द्वारा "पश्चिमी रेलवे के गांधीधाम यार्ड और कराचिया यार्ड में वाई-फाई की आपूर्ति, स्थापना, और कमीशनिंग के लिए खुली ई-निविदा आमंत्रित की जाती है।"

निविदा सचना और निविदा दस्तावेज https://www.railtelindia.com पर उपलब्ध हैं और इसे ई-निविदा पोर्टल https://www.ireps.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है। भविष्य के सभी परिशिष्ट / शुद्धिपत्र कंवल रेलटेल की वेबसाइट और ई-निविदा पोर्टल पर ही अपलोड किये जाएंगे

वेस्टर्न रेलवे माइक्रोवेव कॉम्पलेक्स,

सेनापति वापट मार्ग, महालक्ष्मी, मुम्बई-400013 फोनः 91(22)24923907, फैक्सः 91(22)24923913

SURAKSHA सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन लिमिटेड (पूर्व की सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड)

CIN: U74120MH2015PLC268857 पंजीकृत कार्यालय : आईटीआई हाउस, 36 डॉ. आर के शिरोडकर रोड, परेल, मुम्बई 40012 फोन : +91 22 4027 3679 फैक्स : +91 22 4027 3700 ईमेल आईडी : admin@surakshaarc.com वेबसाइट : www.surakshaarc.com

शद्धिपत्र

यह विज्ञापन इस समाचार पत्र में दिनांक 12/10/2021 को प्रकाशित विज्ञापन जिसमें ऋणकर्ता का नाम एस एस एक्जिम प्राइवेट लिमिटेड, अल्का गोयल, राजीव गोयल है, में सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन लिमिटेड का पता गलत छप गया है, सही पता उपरोक्त है। अन्य सभी विवरण यथावत रहेगा।

दिनांक: 14.10.2021 (प्राधिकत अधिकारी) सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रशन लिमिटेड स्थान : नई दिल्ली (सरक्षा एआरसी-032 टस्ट के टस्टी के रूप में अपनी क्षमता में कार्यरत)

SURAKSHA सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन लिमिटेड

(पूर्व की सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड) CIN: U74120MH2015PLC268857 पंजीकृत कार्यालय : आईटीआई हाउस, 36 डॉ. आर के शिरोडकर रोड, परेल, मुम्बई 40012 फोन : +91 22 4027 3679 फैक्स : +91 22 4027 3700

ईमेल आईडी : admin@surakshaarc.com वेबसाइट : www.surakshaarc.com शुद्धिपत्र

यह विज्ञापन इस समाचार पत्र में दिनांक 12/10/2021 को प्रकाशित विज्ञापन जिसमे ऋणकर्ता का नाम एस एस एक्जिम प्राइवेट लिमिटेड, अक्षज इंफा प्राईवेट लिमिटेड है, मे सुरक्षा एसेट रिकंस्टक्शन लिमिटेड का पता गलत छप गया है. सही पता उपरोक्त है। अन्य सभी विवरण यथावत रहेगा। (प्राधिकृत अधिकारी) दिनांक : 14.10.2021

सुरक्षा एसेट रिकस्ट्शन लिमिटेड स्थान : नई दिल्ली (सुरक्षा एआरसी-032 ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता में कार्यरत)

534146/2021/Power Deptt

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद **NEW DELHI MUNICIPAL COUNCIL** पालिका केन्द्र, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

Palika Kendra, Sansad Marg, New Delhi-110001

सावजानक सूचना

नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (''आवेदक'') ने वितरण (व्हीलिंग एवं रिटेल आपूर्ति) व्यवसाय के लिये एफवाई 2019-20 के टू-अप तथा एफवाई 2021-22 के लिये एआरआर के लिये आवेदन दाखिल किया था जिसे आदेश तिथि 19.2.2021 के माध्यम से माननीय दिल्ली विद्युत विनियामक के आयोग द्वारा स्वीकार किया गया। आवेदन की विशेषताओं को दैनिक समाचार पत्रों में व्यापक रूप से विज्ञापित किया किया गया। विज्ञापन के प्रत्युत्तर में कुछ उपभोक्ताओं/उपभोक्ता समुहों/स्टैकधारकों ने अपनी टिप्पणी एंव सलाह प्रस्तुत की जिसका आवेदक द्वारा जवाब दिया था। जनता एवं/अथवा उनके प्रतिनिधियों की टिप्पणी एवं सुझावों तथा आवेदक द्वारा दी गई तर्कों पर माननीय दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग द्वारा ध्यान दिया गया। उपरोक्त का विचार करने के उपरांत माननीय दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग ने विद्युत अधिनियम, 2003 तथा दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (व्हीलिंग शुल्क तथा रिटेल आपूर्ति शुल्क के निर्धारण के नियमों तथा शर्तों) के विनियमन द्वारा उसमें निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपनी प्रेस विज्ञप्ति तिथि 30.9.2021 के माध्यम से शल्क अनसची को अनमोदित किया है जो 1.10.2021 से लाग होगी।

विद्यत अधिनियम. 2003 तथा उसके अंतर्गत निर्मित विनियमना क प्रावधाना क अनुसार यह शुल्क अनुसूची उसके स्थान पर नये शुल्क आदेश आने एवं/अथवा उसके संशोधित, समीक्षित अथवा पुनरीक्षित होने तक लागू रहेगा।

क्रम सं.	IIVK	ानधाारत चाजज	एनजा चाजज				
1 1.1	घरेलू वैयक्तिक कनैक्शन्स		0-200 यूनिट्स	201-400 यूनिट्स	401-800 यूनिट्स	801-1200 यूनिट्स	>1200 यूनिट्स
क ख ग घ	2 kw तक > 2kw तथा < 5kw > 5kw तथा < 15 kw > 15kw तथा < 25kw < 25kw	20 रु./kw/माह 50 रु./kw/माह 100 रु./kw/माह 200 रु./kw/माह 250 रु./kW/माह	3.00 ₹./kwh	4.50 रु./kwh	6.50 रु./kwh	7.00 ₹./kwh	8.00 रु./kwh
1.2	एकल प्वाइन्ट सुपूर्दगी आपूर्ति	150 रु./kw/माह			4.50 रु./kW		7

1.2	एकल प्वाइन्ट सुपूर्दगी आपूर्ति 15	50 रु./kw/माह	4.50 रु./kWh
क्रम सं.		निर्धारित चार्जेज	एनर्जी चार्जेज
	जीएचएस के लिये		
2	गैर-घरेलू	-	
2.1	3kVA तक	250 रु./kVA/माह	6.00 ₹./KVAh
2.2	3kVA से ऊपर	250 रु./kVA/माह	8.50 रु./KVAh
3	औद्योगिक	250 रु./kVA/माह	7.75 रु./KVAh
4	कृषि -	125 रु./kw/माह	1.50 ₹./Kwh
5	मशरुम की खेती	200 रु./kw/माह	3.50 ₹./Kwh
6	सार्वजनिक उपयोगिताओं	250 रु./kVA/माह	6.25 रु./KVAh
7	दिल्ली इन्टरनेशनल एयरपोर्ट लि. (डीआईएएल)	250 रु./kVA/माह	7.75 रु./KVAh
8	विज्ञापन एवं होर्डिंग्स	250 रु./kVA/माह	8.50 रु./KVAh
9	अस्थाई आपूर्ति	2	5/8
9.1	ग्रुप हाउसिंग सोसायटीज सहित घरेलु कनैक्शन	संबंधित श्रेणी के समान दर	ि बिना किसी अस्थाई अधिभार के संबंधित श्रेणी के समान

9.2 थ्रेसिंग की मौसम के दौरान थ्रेसर्स के लिये एमसीडी का विद्युत करः रु. 270 प्रति कनैक्शन प्रति माह

9.3 निर्माण परियोजनाएं सहित अन्य सभी कनैक्शन संबंधित श्रेणी की शुल्क का 1.30 गुणा 10 एकल प्वाइन्ट डेलिवरी/बैट्टीज के स्वैपिंग पर ई-रिक्शा/ई-व्हीकल के लिये चार्जिंग स्टेशनों 10.1 एलटी में आपूर्ति 4.50 रु./Kwh 10.2 एचटी में आपूर्ति 4.00 रु./KVAh

. उपभोक्ताओं की घरेलु श्रेणी के लिए स्वीकृत भार अथवा अनुबंध मांग, जैसा भी मामला हो, पर निर्धारित शुल्कों की वसुली की जाएगी। . घरेलू को छोड़कर अन्य सभी श्रेणियों के लिए बिलिंग मांग प्रति Kw/Kva पर आधारित निर्धारित शुल्कों की वसूली की जाएगी। डीईआरसी (आपूर्ति

संहिता था निष्पादन मानकों) विनियमन, 2017 में परिभाषित रूप में जहां अधिकतम मांग (एमडी) रीडिंग स्वीकृत भार/ अनुबंध मांग से अधिक होती है तो केवल ऐसी बिलिंग साईकल के लिए Kw/Kva में अधिक भार के समानुरूप निर्धारित चार्जेज पर 30% अधिभार की वसुली की जोगी जहां-कहीं भी स्वीकृत भार/ अनुबंध मांग Kw/HP में है, Kva की गणना संबंधित बिलिंग साईकल के लिए उपभोक्ता के वास्तविक पावर फैक्टर के आधार की जाएगी तथा वास्तविक पावर फैक्टर अनुपलब्ध होने की स्थित में पावर फैक्टर पर विचार स्वीकृत भार/ 10 Kw/ 11Kav तक अनुबंध मांग पर उपयोगिता के रूप में दिया जाएगा। दिन का समय (टीओडी) शुल्क

क. टीओडी शल्क ऐसे सभी उपभोक्ताओं (घेरल को छोड़कर) के लिए लागू होगा जिनका स्वीकृत भार/ एमडीआई (जो भी ऊंचा से) 10 Kw 11Kva तथा अधिक होता है।

ख. घरेलू कनैक्शनों सहित अन्य सभी तीन फेज (3Q) कनैक्शनों के लिए वैकल्पिक। यदि उपभोक्ता ने टीओडी का चयन किये हैं, मीटरों के प्रौन्नयण के लिए शुल्क, यदि कोई हो, का वहन संबंधित उपभोक्ता को करना होगा। आयोग ने ऑफ पीक आवर्स के दौरान छूट तथा 20% पर पीक आवर्स अधिभार को यथावत रखने का फैसाल किया है। वैकल्पिक टीओडी

उपभोक्ताओं के पास एक वित्त वर्ष के भीतर केवल एक ही बार नान-टीओडी रिजिम में वापस जाने का विकल्प होगा। पीक तथा ऑफ-पीक अवधि के अतिरिक्त सामान्य एनर्जी शुल्क लागृ होंगे। घ) आयोग ने पीक तथा ऑफ-पीक अवधि के लिए समय के स्लॉटस को कायम रखा है जो इस प्रकार है:

1	महीना	पीक अवधि (घंटे)	एनजी चार्जेज पर अधिभार	ऑफ-पीक अवधि (घंटे)	एनजी चार्जेज पर छूट
1	मई–सितम्बर	1400-1700 एवं	20%	0400-1000	20%
		2200-0100			
	4. 11Ky, 33/	66Kv तथा 200Kv पर आप	गर्ति के लिए एनर्जी चार्जेज पर 3%.	. 4% एवं 5% का छट लाग होगा।	

जहां कहीं भी उसका प्रबंध डिस्कॉम द्वारा किया जाता हो, स्ट्रीट लाइटों पर अनुरक्षण शुल्क रु. 84/ लाइट प्वाइन्ट/ माह की दर से देय होगा तथा विनिर्दिष्ट शुल्कों के अतिरिक्त आयोग के आदेश तिथि 22 सितम्बर, 2009 के अनुसार मैटीरियल लागत रु. 19/ लाइन्ट प्वाइंट/ माह की दर से

देय होगा। ये शल्कों लाग होने वाले करों तथा ड्यूटीज को छोड़कर हैं। औद्योगिक श्रेणी के अंतर्गत शुल्क लगाने के लिए वैध फैक्ट्री लाइसैन्स अनिवार्य होगा; बशर्ते जहां फैक्ट्री लाइसैंस समाप्त हो चुका हो तथा उसका नवीकरण आवेदन संबंधित प्राधिकरण में लम्बित हो, डिस्कॉम द्वारा ऐसे उपभोक्ताओं के लिए गैर-घरेलू श्रेणी के अंतर्गत लागू शुल्क के अनुसार

बिल किया जाएगा। बशर्ते. फैक्टी लाइसैन्स के नवीकरण पर डिस्कॉम द्वारा उस लाइसैन्स के नवीकरण की प्रभावी तिथि से औद्योगिक श्रेणी के अंतर्गत लाग शल्क के अनसार ऐसे ग्राहकों का बिल समायोजित किया जाएगा

[स्पष्टीकरणः औद्योगिक शुल्क लागु करने के लिए फैक्ट्री लाइसेंस का अर्थ होगा प्रचालन के संबंधित क्षेत्र में कोई उद्योग अथवा फैक्ट्री के संचालन के लिये उद्योग निदेशालय अथवा सुक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यम मंत्रालय अथवा एमसीडी अथवा किसी अन्य केन्द्र या राज्य सरकार की एजेंसी ,जैसा लागू हो, के द्वारा जारी की गई या स्वीकृत लाइसैंस या अनुमति या प्राधिकार या अन्य कोई दस्तावेज]

वितरण लाइसैंसी द्वारा ग्राहको के लिये लागू एनर्जी चार्जेज पर संबधित टीओडी छूट/अधिभार का विचार करने के बाद पीपीएसी की लेवी की

पूर्व भुगतान मीटर्स के माध्यम से आपूर्ति का लाभ प्राप्त करने वाले ग्राहकों के लिये लागू शुल्क पर मूल एनर्जी चार्जेज, निर्धारित चार्जेज तथा अन्य सभी चार्जेज पर 1% का अतिरिक्त छूट लागू होगी। िसंगल प्वाइन्ट डेलिवरी आपूर्तिकर्ता (ग्रुप हाउसिंग सोसायटीज) घरेलू प्रयोजन तथा घरेलू प्रयोजन के लिये आपूर्ति प्राप्त करने वाले वैयक्तिक

सदस्यों के लिये 1.1 की प्रति स्लैब दर के अनुसार घरेलू शुल्क का चार्ज करेंगे तथा घरेलू प्रायोजन छोड़कर अन्य के लिये गैर घरेलू शुल्क चार्ज करेंगे। शुल्क अनुसूची 1.1 के स्लैब दर के अनुसार वैयक्तिक सदस्यों के बिलिंग तथा सिंगल प्वाइंट डेलिवरी आपूर्तिकर्ता के प्रचालन खर्चे सिंहत शुल्क अनुसूची 1.2 के अनुसार बिलिंग की कुल राशि पर कोई न्यूनता/अधिभार खपत के अनुपातिक आधार पर ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज के सदस्यों को पास की जाएगी।

10. ग्रुप हाउसिंग सोसायटीज के माध्यम से एकल प्वाइन्ट डेलवरी पर आपूर्ति प्राप्त करने वाले वैयक्तिक घरेलू उपभोक्ता रा.रा. क्षेत्र दि.स. के आदेश के अनुसार, यदि कोई लागू हो, अनुदान की लाभ का दावा करेंगें। ग्रुप हाउसिंग सोसायटी खपत के विवरणों के साथ पात्र उपभोक्ताओं का विवरण जमा करेंगें तथा डिस्कॉम्स से वैयक्तिक सदस्यों की ओर से अनुदान का दावा दाखिल करेंगे।

।1. एच टी एवं ऊपर आपूर्ति प्राप्त करने वाले एकल प्वाइन्ट डेलिवरी आपूतिकर्ता अपने एलटी उपभोक्ताओं के लिये टैरिफ चार्ज करेंगें तथा इसके अतिरिक्त अपने हानियों तथा खर्चे की आपर्ति के लिये बिल राशि 5% तक चार्ज करने के लिये अधिकृत होंगे ।

12. डीएमआरसी तथा डीआईएएल के ऐसे व्यावसायिक उपभोक्ताओं जिनका स्वीकृत भार 215 केवीए से अधिक है किन्तु एलटी (415 वोल्ट्स) उन्हें सर्व किया जाता है, उनसे 140 KW/150 KW (415 वोल्ट्स) से ऊपर गैर-घरेलू एलटी (एनडीएलटी) श्रेणी के लिये लागू शुल्क की वसूली की जाएगी।

13. अनुसुची में वर्णित दर में सरकार अथवा किसी अन्य सक्षम प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर लेवी की जाने वाली इलेक्ट्रिसटी ड्यूटी तथा अन्य कर एवं चार्जेज शामिल नहीं हैं जिसका अलग से भुगतान किया जायेगा।

4. वितरण लाइसैंसी द्वारा दी गई बिजली बिल जिसका बिल में नियत तिथि के भीतर पूरा भुगतान नहीं किया जाता है, उस मामले में 18% प्रतिवर्ष की दर से विलम्बित भुगतान अधिभार (एलपीएससी) की वसूली की जायेगी। यह एलपीएसई विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 56 के अनुसार भुगतान नहीं करने की स्थिति में नियत तिथि के बाद आपूर्ति बाधित करने के लिये लाइसैंसी के अधिकार के प्रति किसी पूर्वाग्रह के बिना सम्पूर्ण भुगतान करने तक वितरण लाइसैंसी द्वारा उपभोक्ता से भुगतान प्राप्त करने में विलम्ब के दिनों की संख्या के लिये वसूल की जायेगी। यह ऐसे अस्थाई कनैक्शनों तथा प्रवर्त्तन मामलों पर भी प्रयुक्त होगा। जहाँ न्यायालय के निर्देशानुसार राशि के समायोजन के बाद अंतिम बिल राशि का भगतान तय तिथि तक नहीं किया जाता है।

15. वितरण लाइसैन्सी द्वारा नेत्रहीन उपभोक्ताओं, न्यायालय के निपटारा मामले तथा रु. 50.000/- तक किसी विनिर्दिष्ट वाणिज्यिक बैंक की शाखाओं में ग्राहकों द्वारा जमा की गई भुगतान को छोड़कर रु. 4000/- से अधिक की बिजली बिल के लिए नगद में उनके अपने संग्रहण केन्द्रों/ मोबाइल वाहनों में अपने उपभोक्ताओं से कोई भुगतान स्वीकार नहीं की जाएगी। इस प्रावधान का उल्लंघन करने पर सीमा से अधिक कुल नकद संग्रहण के 10% तक दंड लगाई जाएगी। 16. रु. 20,000/- से अधिक घरेलू, कृषि एवं मशरूम की खेती के मामले को छोड़कर सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं के मासिक बिजली बिलों का

भुगतान नेफ्ट, आरटीजीएस, आईएमपीएस, क्रेडिट कार्ड, डैबिट कार्ड, वैलैट्स (जैसे पेटीएम, गूगल पे) आदि जैसी विभिन्न प्लेटफार्म के माध्यम से डिजीटल रूप में किया जाएगा 17. जहां कहीं भी निर्धारित अथवा एनर्जी चार्जेज रु. प्रति Kvah में विनिर्दिष्ट हो, बिलिंग के उद्देश्य से संबंधित बिलिंग साइकल में मीटर में पढ़ी

गई Kvah का उपयोग किया जाएगा।

www.readwhere.com

तिथि: 06.10.2021 नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के लिए CORRIGENDUM TO THE DETAILED PUBLIC STATEMENT FOR THE ATTENTION OF THE PUBLIC SHAREHOLDERS OF

CHOKSI IMAGING LIMITED

Registered Office: Survey No.121, Plot No 10, Silvassa Industrial Est, 66 Kva Road, Amli, Silvassa,

Dadra & Nagar Haveli, 396230, Gujarat, India, Tel: 026 0264 2240 / 41; Email: compliance.officer@choksiworld.com; Website: www.choksiworld.com Open offer for acquisition of up to 10,14,000 (Ten Lakhs Fourteen Thousand) fully paid-up equity shares of face value of Rs. 10/-

(Rupees Ten Only) each ("Equity Shares"), representing 26.00% (Twenty-Six Percentage) of the Voting Share Capital of Choksi Imaging Limited (the "Target Company"), from the Public Shareholders of the Target Company by Mr. Samir Choksi ("Acquirer 1") and Choksi Asia Private Limited (Formerly Known as Hi-Tech Imaging Private Limited) ("Acquirer 2") are collectively referred to as

This Corrigendum to the Detailed Public Statement ("Corrigendum") is being issued by Fedex Securities Private Limited, the Manager to the Open Offer ("Manager"), on behalf of the Acquirers in compliance with Regulations 3(2) and other applicable provisions of the Securities Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations 2011 and subsequent amendments thereto ("SEBI (SAST) Regulations") This corrigendum should be read in conjunction with the Public Announcement ("PA") dated September 29, 2021 & Detailed Public Statement ("DPS") dated October 05, 2021, which was published in Financial Express Newspaper (English- All Editions), Jansatta Newspaper (Hindi -All Editions), Financial Express Newspaper (Gujarat- Ahmedabad Edition), Janadesh Newspaper (Gujarat- Silvassa-Dadra Nagar Haveli Edition) and Pratahakal Newspaper (Regional - Mumbai Edition) on October 06, 2021.

The capitalized terms used but not defined in this Corrigendum shall have the same meaning assigned to them Detailed Public

Statement, unless otherwise defined. The public shareholders of the target company are requested to kindly note the following information revision with respect to

In point number 4.3 of INFORMATION ABOUT THE TARGET COMPANY-appearing in the DPS shall be replaced as follows: 4.3 The registered Office of the Target Company is currently situated at Survey No.121, Plot No 10, Silvassa Industrial Est, 66 KVA

Road, Amli, Silvassa, Dadra & Nagar Haveli, 396230. Tel. No. 0260-2642240. The CIN of the Target Company is L24294DN1992PLC005560. The shareholders of the Target Company approved the resolution passed through Postal ballot on June 30, 2021 for change in registered office of the company from the Union Territory of Dadra & Nagar Haveli to the state of Maharashtra which falls outside state jurisdiction of existing (Registrar of Company) RoC. The status of the application before the Regional Director, Ahmedabad as on date is pending. In Section III- SHAREHOLDING AND ACQUSITION of DETAILS appearing in the DPS shall be replaced as follows:

The present and proposed shareholding of the Asquirers in the Target Company and the details of their acquisition are as follows:

Particulars	Shareholding PA date	as on	Shares Acquired PA date and the Di		Post offer sharehol working day after cl Period) Assuming ful the Open offer and shares (1) (2)	osing of Tendering I acceptance under
	No. of Shares	%	No. of Shares	%	No. of Shares	%
Acquirer 1	86,565	2.22%	Nil	, N	16,72,615	42.89%
Acquirer 2	Nil	73	Nil	18	un interest and a	20-4275-3555

1) As per confirmation letter dated October 12, 2021 received from the Target Company in relation to the rectification in shareholding pattern of the Promoter & Promoter group of the Target Company was filed at BSE portal. The revised shareholding of the Promoter & promoter group is 16,10,364 Equity shares representing 41.29% of the Current Voting Share Capital of the Target Company, Assuming full acceptance under the Open Offer the Promoter and Promoter Group holding will be 81.96% of the Current Voting Share Capital of the Target Company.

 The Acquirers will acquire an aggregate of 5,72,050 (14.67%) of the Equity Shares from the Sellers as per the split provided in the Share Purchase Agreement (SPA).

Information

Date: October 13, 2021.

Except as detailed in this Corrigendum, all other terms of the DPS remain unchanged.

2. The Acquirers and their respective directors accept full responsibility for the information contained in this Corrigendum to the DPS, shall be jointly and severally responsible for the fulfillment of their obligations laid down in the SEBI (SAST) Regulations and subsequent amendments made thereto.

3. All other terms and conditions in the Public Announcement and DPS shall remain unchanged.

4. In this Corrigendum DPS, any discrepancy in any table between the total and sums of the amount listed is due to rounding off

5. A copy of this Corrigendum to the DPS, will also be available at SEBI website at www.sebi.gov.in

*	FEDEX SECURITIES PRIVATE LIMITED B7, Jay Chambers, Dayaldas Road, Vile Parle (East), Mumbai - 400 057 Tel. No.: +91-81049 85249 Email: mb@fedsec.in Contact Person: Yash Kadakia; SEBI Registration Number: INM 000010163
---	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

इण्डियन औवरसीन् बैक के पास, दिल्ली रुड़की हाईवे, मेरठ कब्जा सुचना (अचल संपत्ति के लिए) (नियम 8 (1))

प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम २००२ के साथ पढते हुए अनुच्छेद १३(१२) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इण्डियन ओवरसीज बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने सम्बन्धित ऋणी/ ऋणियों/ बंधककर्ता को प्रत्येक के नाम के सामने दर्शायें गयें खाते मे उनके नामों के सामने दी गई तारीखों पर नोटिस की तारीख क्त नोटिस की तारीख से 60 दिनों में बकाया राशि वास्तविक दरों पर संविदा दर और ब्याज , वसूली आदि पर ब्याज सहित अदा करने के लिए मांग नोटिस जारी केया गया था। ऋणी/ ऋणियों द्वारा राशि अदा करने मे असफल रहने पर ऋणी/ ऋणियों और जन सामान्य को नोटिस दिया जाता है कि प्राधिकृत अधिकारी न खाते के सामने दी गई तारीख को उक्त नियमों के नियम-8 के साथ पढ़ते हुए उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अन्तर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते ए नीचे दी गई सम्पत्ति/ सम्पत्तियों का कब्जा 11 **अक्टबर 2021** ले लिया है। ऋणी/ ऋणियों को विशेष रूप से एवं जन समान्य रूप से यह चेतावनी दी जाती है के वे उक्त सम्पत्ति/ सम्पत्तियों के सम्बन्ध मे किसी प्रकार का लेन-देन न करे। इन सम्पत्ति/ सम्पत्तियों से किसी प्रकार का लेन-देन इण्डियन ओवरसीज बैंक को देय राशि वास्तविक दरों पर संविदा दर एवं उस पर अर्जित ब्याज एवं अन्य चीर्ज के पूर्ण भूगतान के पश्चात ही किया जा सकता है। मांग नोटिस जारी करने के बाद भगतान की तारीख, अगर कोई हो, की मांग नोटिस में उल्लेखित तारीख से कब्जा लेने की तारीख के अनुसार देव बकाया अनुबंध की दरों पर और ब्याज शुल्क आदि, भुगतान की तिथि तक देव राशि के साथ देव है।

ऋणकर्ताओं और बंधककर्ता का ध्यान अधिनियम की धारा 13 के उप-धारा (8) के प्रावधानों के लिए आमंत्रित किया जाता है, जो उनके लिए उपलब्ध समय के संबंध में सरक्षित संपत्ति को भुनाते हैं

東0 सi0	·	बंधक सम्पत्ति का विवरण	मांग नोटिस की तारीख	कब्जा नोटिस की तारीख	कब्जा नीटिस के अनुसार बकाया राशि
1.	 श्री अमित गर्ग (ऋणकर्ता) पुत्र स्वर्गीय श्री सुनील कुमार गर्ग, मकान नंबर बी 4, सीकरी रोड, वार्ड नंबर 15, मोदीनगर, गाजियाबाद, यूपी, 201204. अन्य झात पताः निवासी खसरा नंबर 110 का माग, मौहल्ला कृष्णा नगर, गली नंबर 2, गांव सीकरी खुर्द, मोदी नगर, तहसील मोदी नगर, जिला गाजियाबाद यूपी, 201204 श्री मोहित गर्ग (ऋणकर्ता) पुत्र स्वर्गीय श्री सुनील कुमार गर्ग मकान नंबर बी 4, सीकरी रोड, वार्ड नंबर 15, मोदीनगर, गाजियाबाद, यूपी, 201204. श्रीमती सुधा गर्ग (सह—ऋणकर्ता और बंधककर्ता) पत्नी स्वर्गीय श्री सुनील कुमार गर्ग, मकान नंबर बी 4, सीकरी रोड, वार्ड नंबर 201204. श्री मनोज कुमार (ऋणकर्ता) पुत्र श्री महेश माग, ग्राम सीकरी खुर्द, गौहल्ला आनंद विहार, मोदी दुकान का पताः विदल फुटवियर, मेन रोड, गुरुद्वार दुकान का पताः विदल फुटवियर, मेन रोड, गुरुद्वार 	स्थित खसरा नंबर 110 का भाग, मौहल्ला कृष्णा नगर, गली नंबर 2, गांव सीकरी खुर्द, मोदीनगर, जिला गाजियाबाद, यू.पी. — 201204, क्षेत्रफल 150 वर्ग गज, स्वामिनी श्रीमती सुधा गर्ग पत्नी स्वर्गीय श्री सुनील कुमार गर्ग, सीमायें:— उत्तरः श्री अरुण कुमार का मकान, दक्षिणः दूसरों का मकान, पृष्टिमः 20 फीट चौड़ी सड़क। 15, मोदीनगर, गाजियाबाद, यू.पी. विंदल, निवासी खसरा नंबर 36 का नगर, गाजियाबाद, यू.पी.	मांग नोटिस के अनुसार बकाया राशि रू 16,10,213.97 दिनांक 31.05.2021 तक + अगामी व्याज + अन्य शुल्क	11.10.2021	रू 16,53,409.97 + अगामी ब्याज + अन्य शुल्क दिनांक 30.09.2021 तक
	1.श्रीमती अनुराधा वर्मा (ऋणकर्ता सह बंधककर्ता) पत्नी श्री विपिन कुमार वर्मा मकान नं. 337, पीपल के पेड़ के पास, बेगमाबाद बुडाना, मोदीनगर, गाजियाबाद, यूपी 201204 2. श्री विपिन कुमार वर्मा (सह—ऋणकर्ता) पुत्र श्री राज कुमार वर्मा, मकान नं. 337, पीपल के पेड़ के पास, बेगमाबाद बुडाना, मोदीनगर, गाजियाबाद,	प्लॉट नं. ½, खसरा नंबर 437, न्यू आनंद विहार, ग्राम फफराना, परगना जलालाबाद, तहसील मोदीनगर, गाजियांबाद, यू.पी. –201204, क्षेत्रफल 50 वर्ग गज.	मांग नोटिस के अनुसार बकाया राशि रू 9,39,824.99	11.10.2021	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

	201204. 4. श्री मनोज कुमार (ऋणकर्ता) पुत्र श्री महेश बिंदल, निवासी खसरा नंबर 36 का भाग, ग्राम सीकरी खुर्द, मीहल्ला आनंद विहार, मोदीनगर, गाजियाबाद, यूपी 201204 दुकान का पताः बिंदल फुटवियर, मेन रोड, गुरुद्वारा रोड, मोदीनगर, जिला गाजियाबाद			
2.	1.श्रीमती अनुराधा वर्मा (ऋणकर्ता सह एक आवासीय मकान संपत्ति स्थित वंधककर्ता) पत्नी श्री विपिन कुमार वर्मा मकान प्लॉट नं. ½, खसरा नंबर 437, न्यू नं. 337, पीपल के पेड़ के पास, बेगमाबाद बुंडाना, मोदीनगर, गाजियाबाद, यूपी 201204 परगना जलालाबाद, तहसील 2. श्री विपिन कुमार वर्मा (सह—ऋणकर्ता) पुत्र मोदीनगर, गाजियाबाद, यूपी. श्री राज कुमार वर्मा, मकान नं. 337, पीपल के पेड़ के पास, बेगमाबाद बुंडाना, मोदीनगर, गाजियाबाद, यूपी. —201204, क्षेत्रफल 50 वर्ग गज, के पास, बेगमाबाद बुंडाना, मोदीनगर, गाजियाबाद, यूपी. —201204, क्षेत्रफल 50 वर्ग गज, स्वामिनी श्रीमती अनुराधा वर्मा पत्नी विपिन कुमार वर्मा, सीमार्थे:— उत्तर: 15.79' चौड़ा उसके बाद बिंदल, निवासी खसरा नंबर 36 का माग, ग्राम दूसरों का प्लॉट, दक्षिण: 15.76' तहसील मोदी नगर, जिला गाजियाबाद 201204 दुकान का पता: बिंदल फुटवियर, मेन रोड, पश्चिम: 28.5' उसके बाद दूसरों का मकान, पुरुद्वारा रोड, मोदीनगर, जिला गाजियाबाद	मांग नोटिस के अनुसार बकाया राशि रू 9,39,824.99 दिनांक 31.05.2021 तक + अगामी ब्याज + अन्य शुल्क	11.10.2021	रू 9,64,507.99 + अगामी व्याज + अन्य शुल्क दिनांक 30.09.2021 तक
3.	1. श्री मनोज कुमार (ऋणकर्ता) पुत्र श्री महेश एक आवासीय मकान संपत्ति स्थित बिंदल, निवासी खसरा नंबर 36 का भाग, ग्राम खसरा नंबर 36 का भाग, ग्राम सीकरी खुर्द, मोहल्ला आनंद विहार, मोदीनगर, सीकरी खुर्द, मोहल्ला आनंद विहार, गांजियाबाद, यूपी 201204 तहसील मोदीनगर, गांजियाबाद, यू, पी. —201204, क्षेत्रफल 38.04 वर्ग गुरुद्वारा रोड, मोदीनगर, जिला गांजियाबाद— भीटर, स्वामिनी श्रीमती रजनी पत्नी 201204 श्री मनोज कुमार, सीमार्थे:— उत्तरः 2. श्रीमती रजनी (बंधककर्ता) पत्नी श्री मनोज 13 फीट चौडा उसके बाद लाला कुमार, निवासी खसरा नंबर 36 का भाग, ग्राम जी के प्लाट, दक्षिणः 13 फीट लगा सीकरी खुर्द, मौहल्ला आनंद विहार, मोदीनगर, हुआ 16 चौड़ा रास्ता, पूर्वः 31 फीट गांजियाबाद, यूपी 201204 हुंच उसके बाद दूसरों का प्लॉट, 3. श्रीमती अनुराधा वर्मा (गारंटर) पत्नी श्री पश्चिमः 31 फीट 6 इंच उसके वाद	मांग नोटिस के अनुसार बकाया राशि रू 9,94,332.95 दिनांक 31.05.2021 तक + अगामी व्याज + अन्य शुल्क	11.10.2021	रू 10,10,332.95 + अगामी ब्याज + अन्य शुल्क दिनांक 30.09.2021 तक

सीकरी खुर्द, मोहल्ला आनंद विहार, मोदीनगर, हुअ गाजियाबाद, यूपी 201204 6 इ 3. श्रीमती अनुराधा वर्मा (गारंटर) पत्नी श्री पशि विपिन कुमार वर्मा निवासी मकान नंबर 337, रूहे पीपल के पेड़ के पास, बेगमाबाद बुडाना, मोदीनगर, गाजियाबाद, यूपी 201204	इंच उसके बाद दूसरों का प्लॉट, रेचम: 31 फीट 6 इंच उसके बाद	+ अन्य शुल्क		
2. श्रीमती नसीम बेगम (बंधककर्ता) पत्नी मेर मो. यूनुस चौधरी, निवासी मकान नंबर 492, कोटला घंटा घर, मेरठ – 250002 3. श्री नौशाद पुत्र श्री अमीरुद्दीन, निवासी मकान नं. 660, अंगूर वाली मस्जिद, बागपत लग गेट, मेरठ – 250002	/2, उत्तरी माग एमपीएल नंबर मवानी नगर, नौचंदी कंपाउंड उठ— 250005, क्षेत्रफल 100 वर्ग ज, स्वामिनी श्रीमती नसीम बेगम नी मोहम्मद यूनुस चौधरी, सीमायें उत्तर: 30 फीट उसके बाद श्री इरीस का प्लॉट, दक्षिण: 30 फीट गा हुआ शब्बीर की संपत्ति के शेष ग से, पूर्व: 30 फीट लगा हुआ ब्बीर और रायशा बेगम के मकान पश्चिम: 31 फिट लगा हुआ रास्ता	मांग नोटिस के अनुसार बकाया राशि रू 12,18,934.86 दिनांक 31.05.2021 तक + अगामी व्याज + अन्य शुल्क	11.10.2021	रू 12,20,831.86 + अगामी ब्याज + अन्य शुल्क दिनांक 30.09.2021 तक
 श्रीमती प्रेरणा (ऋणकर्ता सह बंधककर्ता) एक पत्नी श्री संजीव पंवार, निवासी मकान नं. 		16.06.2021	11.10.2021	₹ 19,88,266.31

	शब्बीर और रायशा बेगम के मकान से,पश्चिम: 31 फिट लगा हुआ रास्ता	र अन्य शुल्प
 श्रीमती प्रेरणा (ऋणकर्ता सह बंधककर्ता) पत्नी श्री संजीव पंवार, निवासी मकान नं. 	नंबर 138/4 एम, खुरमपुर,	
207 / 11, कासमपुर, मेरठ केंट, मेरठ 250001. 2. श्री संजीव पंवार पुत्र श्री राजपाल सिंह पंवार, निवासी मकान नंबर 207 / 11, कासमपुर, मेरठ केंट, मेरठ 250001	82.34 वर्ग गज, स्वामनी श्रामता	अनुसार बकाया राशि रू 19,59,524.31 दिनांक 31.05.2021 तक + अगामी ब्याज

. श्रीमती शालू मित्तल (ऋणकर्ता सह धककर्ता) पत्नी श्री राहल मित्तल निवासी		
कान नं 897 / 1 शिव शक्ति नगर मेरट —	स्थित मीहल्ला गणेश पुरी वर्तमान में मीहल्ला इंद्रा नगर, मेरठ— 250001 क्षेत्रफल 55.74 वर्ग मीटर	मांग नोटिस के अनुसार बकाया राशि

और रिकू का मकान।

3. श्री अशोक शर्मा पुत्र श्री शिव राम शर्मा ²⁵ फीट उसके बाद दूसरों का मकान, दक्षिण: 25 फीट उसके बाद निवास मकान नं. 1387, इंद्रा नगर, मेरठ दूसरों मकान, पूर्वः 24 फीट उसके बाद 12 फीट चौड़ी सड़क, पश्चिम:

13,72,734.30 · अगामी ब्याज + अन्य शुल्क + अगामी ब्याज + अन्य शुल्क

सीआईएन: L74110DL1962PLC003634 पंजीकत कार्यालय: पहली मंजिल, 4/10, आसफ अली रोड, दिल्ली-110002 ई-मेल आईडी: admin@everesttools.com; वेबसाइट: www.everesttools.com

हिंदुस्तान एवरेस्ट टुल्स लिमिटेड

वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के लिए शुद्धिपत्र यह एक्सचेंज पर दिनांक 01 अक्टूबर, 2021 के प्रकटीकरण के संदर्भ में है, मसौदा वार्षिक रिपोर्ट अनजाने में हमारे द्वारा संलग्न किया गया है, हम आपको वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए वार्षिक रिपोर्ट के संशोधित और संशोधित संस्करण पर विचार करने के लिए सचित करना चाहते हैं जिसका कंपनी की वेबसाइट www.everesttools.com पर और एक्सचेंज www.bseindia.com पर

पहले ही खुलासा किया जा चुका है। इस शद्धिपत्र को कंपनी के सदस्यों की वार्षिक आम बैठक बुधवार, 27 अक्टूबर, 2021 को आयोजित करने वाली 06 अक्टूबर, 2021 की सूचना के संयोजन में और उसके साथ पढ़ा जाएगा। एजीएम की सचना की अन्य सभी सामग्री अपरिवर्तित रहेगी।

यह शुद्धिपत्र कंपनी की वेबसाइट पर भी डाला जा रहा है।

हिंदस्तान एवरेस्ट टल्स लिमिटेड के लिए

जगहः नई दिल्ली देवांश गुप्ता दिनांक: 13/10/2021 प्रबंध संचालक

सार्वजनिक सचना

(भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड के विनियम 6 के अंतर्गत (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियमन, 2016)

रिटेल कार्ट सॉल्युशन प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों के ध्यान के लिए

प्रासंगिक विवरण प्राधिकरण जिसके तहत देनदार कंपनी रजिस्टार-दिर्ल्ल

निगमित/पंजीकत कॉर्पोरेट पहचान संख्या/लिमिटेड U52500DL2015PTC27549 कॉर्पोरेट देनदार की देयता पहचान संख्य कॉर्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय 🖣 पंजीकृत कार्यालय-P-222-Kh-43/12 राज नगर, II पाल का पता और प्रधान कार्यालय का पता कॉलोनी, नई दिल्ली-110077

(यदि कोई हो) दिवाला शुरू होने की तारीख कॉर्पोरेट 12 अक्टूबर, 2021 (11 अक्टूबर 2021 को कारोबारी घंटों के बार मेल प्राप्त हुई और आईआरपी द्वारा 12 अक्टूबर, 2021 को उसे पढ़ देनदार के संबंध में आदेश पारित किया गया।

गया)। 27.02.2020 को माननीय एनसीएलटी, नई दिल्ली पीठ द्वार दिवाला शुरू होने की तारीख से 180 दिन यानी 12 अक्टूबर, 202 दिवाला समाधान प्रक्रिया बंद होने की अनुमानित तिथि (आईबीबीआई/आईपीए-002/आईपी-N00700/2018-कार्य करने वाले दिवाला पेशेवर का नाम और पंजीकरण संख्या 2019/12348) अंतरिम समाधान पेशेवर का पता और ई- डी-306, आशियाना द हेरिटेज, सेक्टर 4 वैशाली, गाजियाबाद-मेल. जैसा कि बोर्ड के साथ पंजीकृत है 201010, pravag3001@gmail.com 10. अंतरिम समाधान पेशेवर के साथ 906. टॉवर ए. आई-थम बिजनेस पार्क, ऑप. नोएडा इलेक्टॉनिक पत्राचार के लिए उपयोग किया जाने सिटी मेट्रो रेल स्टेशन, नोएडा-201301 वाला पता और ई-मेल praveen.agrawal@synergyipe.com

12. अंतरिम समाधान पेशेवर द्वारा निर्धारि धारा 21 की उप-धारा (6ए) के खंड (बी) के तहत लेनदारों के वर्ग यदि 13. एक वर्ग में संपादकों के अधिकत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए पहचाने गए दिवाला पेशेवरों के नाम (प्रत्येक वर्ग के लिए तीन नाम) 14. (ए) प्रासंगिक फोन्स और अधिकृत वेबलिंक htlps://ibbi.gov.in/home/downloads प्रतिनिधि के विवरण यहां उपलब्ध हैं: भौतिक पताः लागु नहीं

प्राइवेट लिमिटेड की कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है।

11. दावे जमा करने की अंतिम तिथि

दिनांक: 14.10.2021

Sunject Comm

लैडलाइन-0120-4120027 मोबाइलः 9720108105

26.10.2021 (आदेश की सूचना की तिथि से 14 दिन)

रिटेल कार्ट सॉल्यशन प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों को एतदुद्वारा प्रविष्टि संख्या 10 के सामने उल्लिखित पते पर अंतरिग समाधान पेशेवर को 26.10.2021 को या उससे पहले सबत के साथ अपने दावे प्रस्तत करने के लिए कहा जाता है वित्तीय लेनदारों को अपने दावों को केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रमाण के साथ प्रस्तुत करना होगा। अन्य सर्भ लेनदार व्यक्तिगत रूप से डाक द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रमाण के साथ दावे प्रस्तुत कर सकते हैं। दावे के झुठे या भ्रामक प्रमाण प्रस्तुत करने पर दंड लगाया जाएगा।

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल दिल्ली बेंच ने 27.02.2020 को रिटेल कार्ट सॉल्यूशन

प्रवीण कुमार अग्रवा **E-AUCTION SALE NOTICE FOR ASSETS OF**

NOIDA SOFTWARE TECHNOLOGY PARK LIMITED CIN-U72200DL1999PLC098726 (COMPANY IN LIQUIDATION) Liquidator: Mr. Alok Kumar Agarwal Registered Office: Scinda Villa, Saroiini Nagar, New Delhi, DL-110023 Email ID: nstpl@ascgroup.in

Sale of Assets under Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 THE ASSETS OF THE COMPANY IN LIQUIDATION ARE BEING SOLD ON "AS IS WHERE IS, AS IS WHAT IS, WHATEVER THERE IS AND WITHOUT **RECOURSE BASIS"**

E-AUCTION

Date and Time of E-Auction: November 08, 2021 at 02:00 pm IST to 04:00 pm IST (With unlimited extension of 5 minutes each)

Sale of Assets and Properties owned by Noida Software Technology Park Limited (in Liquidation) forming part of Liquidation Estate formed by the Liquidator, appointed by the Hon'ble National Company Law Tribunal, Delhi Bench, vide order dated September 04, 2020 (copy of orde received on September 09, 2020). The sale will be done by the undersigned through the e-auction platform www.auctiontiger.in.

Reserve Price EMD Amount Incremental Block **Assets** (In Rs. lacs) (In Rs.lacs) Value (In Rs. lacs 1.333.17 1. Plant & Machinery 5.00 36.78 2. 26.50 2. Securities & Financial Assets 3. Scrap of building at Greater 3. 8.15 Noida Unit Total: 367.82 333.17 33.32 5.00 Plant & Machinery (10% deduction from last sale) 26.50 2.65 1.00 Securities & Financial Assets (10%deduction from last sale)

D Scrap of building 8.15 0.82 NOTE: Further the above Sale is subject to terms & conditions mentioned in the process documer uploaded on the website of "M/s e-Procurement Technologies Limited -Auction Tiger". For details please visit www.auctiontiger.in or www.nstpl.co Last Date for submission of bids: November 01, 2021 (Monday)

E-Auction Date: November 08, 2021 (Monday) Contact No.: 8447079462 (Ms. Mahima Tulsian) Escalation: If the query is not responded on the phone number given above, then WhatsApp message

can be sent to +91-9711191523. Terms and Condition of the E-auction are as under 1. E-Auction will be conducted on "AS IS WHERE IS". "AS IS WHAT IS" and "WHATEVER THERE IS

BASIS" AND "WITHOUT RECOURSE BASIS" through approved service provider "M/s e-Procuremen Technologies Limited -Auction Tiger. 2. The complete and detailed information about the assets of the company are available in the "E Auction Process Document" as Annexure – VI to the document, which is available on the websites i.e www.auctiontiger.in. This sale notice must be read along with the "E-Auction Process Document" to ge

3. The Complete E-Auction process document containing details of the Assets, online e-auction Bio Form, Declaration and Undertaking Form, General Terms and Conditions of online auction sale are available on website www.auctiontiger.in Contact: Mr. Praveenkumar Thevar at +91-9722778828 8 praveen.thevar@auctiontiger.net (On going to the link www.auctiontiger.in) interested bidders wil have to search for the mentioned company by using either one of the two options, (I) Company's name (Noida Software Technology Park Limited), or by, (II) State and property type).

4. (a) In case there is at-least one Eligible Bidder for Block A, the e-auction of all other blocks will stand cancelled and EMD received for all other Blocks, if any, will be returned to the respective bidders; (b) In case, there is no eligible bidder for Block A then E-Auction of Blocks B, C & D will be conducted individually 5. The intending bidders, prior to submitting their bid, should make their independent inquiries

regarding the title of property, dues of local taxes, electricity and water charges, maintenance charges licenses if any and inspect the property at their own expenses and satisfy themselves. The properties mentioned above can be inspected by the

prospective bidders at the site with prior appointment, contacting 8447079462 (Ms. Mahima Tulsian) 6. The intending bidders are required to deposit Earnest Money Deposit (EMD) amount either through DD/NEFT/RTGS in the Account of "NOIDA SOFTWARE TECHNOLOGYPARK LIMITED IN LIQUIDATION", Account No.: 0602002100319936, Punjab National Bank, New Delhi, Branch: Okhla IFSC Code: PUNB0060200, or through DD drawn on any Scheduled Bank in the name of NOIDA SOFTWARE TECHNOLOGY PARK LIMITED IN LIQUIDATION" or give a Bank Guarantee for the EMD Amount as per Format A or Format B as given in the Complete E-Auction process document.

7. The intending bidder should submit the evidence for EMD Deposit or Bank Guarantee and Reques Letter for participation in the E- Auction along with Self attested copy of (1) Proof of Identification (2 Current Address-Proof (3) PAN card (4) Valid e-mail ID (5) Landline and Mobile Phone number (6 Affidavit and Undertaking, as per Annexurec1 (7) Bid Application Form as per Annexure II (8 Declaration by Bidder, as per Annexure III, the formats of these Annexures can be taken from the Complete E-Auction process document. These documents should reach the office of the liquidator o by E-mail, at the address given below before 7:00 PM of November 01, 2021.

8. The Name of the Eligible Bidders will be determined by the Liquidator to participate in e- auction on the portal (www.auctiontiger.in). The e-auction service provider (M/s e- Procurement Technologies Limited Auction Tiger) will provide User id and password by email to eligible bidders.

9. In case, a bid is placed in the last 5 minutes of the closing time of the e-auction, the closing time wil automatically get extended for 5 minutes with unlimited extension. The bidder who submits the highes bid amount (not below the reserve price) on closure of e-Auction process shall be declared as the Successful Bidder and a communication to that effect will be issued through electronic mode which shall

besubject to approval by the Liquidator. 10. The EMD of the Successful Bidder shall be retained towards part sale consideration and the EMD of unsuccessful bidders, who have participated in the bidding process, shall be refunded. The EMD shall not bear any interest. The Liquidator will issue a Letter of Intent (LOI) to the Successful Bidder and the Successful Bidder shall have to deposit the balance amount (Successful Bid Amount – EMD Amount within 30 days on issuance of the LOI by the Liquidator. Default in deposit of the balance amount by the

+ अगामी ब्याज successful bidder within the time limit as mentioned in the LOI would entail forfeiture of the entire amount deposited (EMD + Any Other Amount) by the Successful Bidder. 11. The Successful Bidder shall bear the applicable stamp duties/transfer charge, fees etc.and all the ocal taxes, duties, rates, assessment charges, fees etc. in respect of theproperty put on auction.

12. The Liquidator has the absolute right to accept or reject any or all offer(s) or adjourn/ postpone cancel the e-Auction or withdraw any property or portion thereof from the auction proceeding at any stage without assigning any reason thereof.

13. After payment of the entire sale consideration, the sale certificate/agreement will be issued in the name of the successful bidder only and will not be issued in any other name. 14. The sale shall be subject to provisions of Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 and regulations made thereunder.

15. The interested Bidder(s) shall be provided access to the data room ("Data Room") established and maintained by the Company acting through the Liquidator in order to conduct a due diligence of the ousiness and operations of the Company. The interested bidder(s) shall be provided access to the nformation in the Data Room until the E-Auction Date. The access to, and usage of the information in the Data Room by the interested bidder(s) shall be in accordance with the rules as may be set forth by

the Liquidator from time to time. 16. E- auction date & Time November 08, 2021 (Monday) from 2.00 p.m. to 4.00 p.m. (with unlimited extension of 5 min) Alok Kumar Agarwal

Liquidator Noida Software Technology Park Limited- in Liquidation IBBI Reg. No.: IBBI/IPA-001/IP-P00059/2017-2018/10137

हस्ता./

दिनांक— 13.10.2021

प्राधिकृत अधिकारी

24 फीट उसके बाद श्रीमती मध्

11.10.2021

30.09.2021

+ अन्य शुल्क

दिनांक

30.09.2021

Place: Gurugram

Date-October 14, 2021 Address for correspondence: C-100, Sector-2, Noida, U.P.-20130 1 Email ID: nstpl@ascgroup.in